

B.A.G. Films and Media Limited

"CIN: L74899DL1993PLC051841" FC-23, Sector 16A, Film City, Noida 201 301

Tel.: 0120 4602424 | Fax : 0120 3911401 Mail : info@bagnetwork in

Mail: info@bagnetwork.in www.bagnetwork24.in

BAG/stx/letters/2020-21/AM/1057 October 31, 2020

To,
The Listing Compliance Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G
Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400 051

To, The Listing Department BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001

NSE-SYMBOL: BAGFILMS

BSE-Scrip Code: 532507

Sub: - Submission of Newspaper Advertisement-Intimation of Board Meeting

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of newspapers advertisement published in Business Standard-English and Business Standard-Hindi edition dated October 31, 2020 regarding intimation of Board Meeting to be held on Tuesday, the 10th day of November, 2020.

This is for your information and record please.

Thanking You

Yours sincerely

For B.A.G. Films and Media Limited

(Rajeev Parashar) Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a















DMart Ready on the tortoise route

In contrast to the rapid scale-up by JioMart and others in the online grocery business, DMart Ready remains measured with its e-commerce expansion

VIVEAT SUSAN PINTO Mumbai, 30 Octobei

fter offline retail, two of the country's richest men, Mukesh Ambani Aand Radhakishan Damani, are fighting for a share of the online shopping pie. The approach the two are taking, however, is different. Ambani is bringing his speed, agility and scale to his online venture, JioMart. Damani has opted to be slow and steady in the race to grab market share.

The verdict is not out vet on whose strategy is better, but analysts believe that DMart will have to up the pace if it intends to become a substantive player in the online grocery space, a segment that is growing fast following the Covid-19 pandemic, which has restricted movement of people.

In the September quarter, Avenue Supermarts, which runs the DMart chain of stores, shut two outlets in Mumbai to convert them into online fulfillment centres. The move was significant since it was the first time that an offline champion such as DMart was shutting two of its stores to make way for e-commerce.


DMart has been running its app, DMart Ready, for over four years in Mumbai. The app works on a click-and-pick business model that allows a customer to buy online and pick up the products at multiple delivery centres in catchment areas.

While the lockdown in April-May did see DMart experiment with convenience by increasing home deliveries for those ordering online, operating some stores on a 24-hour basis and bringing DMart products to large housing societies via trucks, these initiatives have been curbed since the Unlock phase began in June.

Neville Noronha, managing director and chief executive officer, Avenue Supermarts, said there were stores within a four-km radius in the areas where the two Mumbai outlets were shut, implying there'd be no impact on offline business.

From an online perspective, analysts said that the move was required as traction from the e-commerce channel was increasing. "Revenue from DMart Ready has doubled from ₹42 crore to over ₹88 crore in the second quarter of FY21. The company increased footprint of DMart Ready to Pune and opened fulfillment centres in Mira Road and Kalyan to increase reach in those markets," said Himanshu Nayyar, lead analyst, institutional equities at brokerage Yes Securities.

But some experts think it would be important for DMart Ready to expand into more places at a time when JioMart has pushed its presence to 200 cities in one go. At Reliance Industries' annual general meeting in July, Chairman Mukesh Ambani had indicated that JioMart would be taken to more locations in the months ahead as digital shopping habits grow in




SIZE OF INDIA'S E-TAIL MARKET

(figures in ₹ trillion)

*Period Size 2020

DMART'S ONLINE BUSINESS **PERFORMANCE**

■Net sales ■Net loss (figures in ₹ crore)



period is calendar year **figures for FY21 are analysts estimates Source: Avendus Capital/DMart/Analysts

shows that online retail would expand from around \$40 billion (₹3 trillion) to \$200 billion (₹15 trillion) in the next five years. This is a five-fold growth and will be led by people seeking convenience, safety and ease of shopping, said Neeraj Shrimali, executive director, digital and technology investment banking, Avendus Capital. The shift to online shopping also comes as people remain wary of spending time out of home for fear of catching the virus, a point that DMart conceded during its September quarter results.

Store visits were down, but basket values had increased, the grocery chain said, pointing to the trend of fewer shopping trips made by people.

Avendus estimates that the habit of online shopping is expected to sustain even after a vaccine for Covid-19 is found, making the online channel an A report by Avendus Capital last week important segment for retailers in the hands full.

future. Most players including Reliance have anticipated this trend. Some such as Aditya Birla Fashion have tied up with online players such as Flipkart for an omnichannel presence, while Reliance has wooed global investors, who've pumped ₹37,710 crore in eight rounds in the last one month in its bid to have a seamless offline-to-online retail play.

Amazon has already committed an additional \$1 billion (₹7,500 crore) for India this year, while Flipkart raised \$1.2 billion (₹9,000 crore) from Walmart in July.

"E-tail will increasingly become India's organised retail. And those players who think digital-first will have a distinct advantage in this new world order," Shrimali said.

While some experts argued that grocery shopping will still have a high proportion of offline sales, a recent report by Goldman Sachs debunks the myth. It says that online grocery will see the biggest incremental growth for e-commerce, touching \$29 billion (₹2.17 trillion) in five years from around \$2 billion (₹15,000 crore) now.

That puts the pressure on players such as DMart, said experts, who are taking a calculated approach to e-commerce.

However, Abneesh Roy, executive vice president, research (institutional equities), Edelweiss, said that DMart would take its time, rather than rush into e-commerce, which involves significant cash burn. "The grocery opportunity is huge in the country and there is scope for multiple players to operate both offline and online," he reasoned.

Though DMart Ready more than doubled its FY20 revenue to ₹354 crore versus ₹144 crore reported the previous year, net loss widened to ₹80 crore from ₹51 crore a year earlier. Analysts estimate that DMart's online revenues could cross the ₹500-crore-mark in FY21, though losses will continue to grow as it takes its operations to more places.

The grocery chain clearly has its

NEWSMAKER/ HARI MENON / CO-FOUNDER AND CEO, BIGBASKET

A bigger basket

SAMREEN AHMAD

nline grocer BigBasket recently made headlines for being in talks with the Tata Group to sell a majority stake in the company for around \$1 billion. If the deal goes through, BigBasket could become a part of the Tata group. In its journey, the unicorn has seen a frugal existence. It had a humble beginning nine years ago in a small office in the Domlur area of Bengaluru with five people on board - V S Sudhakar, Hari Menon, Vipul Parekh, Abhinay Choudhari and V S Ramesh, who had earlier started one of the first online businesses in India, Fabmart.com.

From the worry that the building might collapse any day and with rats running above the ceiling, which was "music an 84 per cent to their ears to keep them increase in awake and going," Menon and his team have come a **accompanied by** long way. The Alibababacked company is currently recording about 20 million orders per month

\$1 billion run-rate in annual revenues. Today, it has a corporate head office that houses over 500 employees of the 25,000 workforce, about 70 per cent of which are blue-collared employees -

delivery boys, warehouse pickers, packers, stackers, fruits and vegetables segregators, loaders and unloaders. "I spent a lot of time with the employees, especially the blue-collar workforce

whom we call associates. Second, I spend a lot of time with our farmers and then customers," says Menon, co-founder and CEO of the company. Menon's three mantras are happiness of blue-collar workers, happiness of farmers and happiness of customers. "If I get these three right, my business can't go wrong."

The problem with a large blue-collar



staff is that attrition on account of poaching may not be a major worry, but absenteeism is very high. For example, if there is an election or a festival, they

go back to their villages. BigBasket has seen Workforce is critical for the company and even if 10-15 people are absent, sales new customers could suffer. So BigBasket runs a lot of rewards and 50 per cent higher recognition programmes retention rates over throughout the month to pre-Covid levels keep them motivated. The company also

and recently reached the milestone of works closely with the farmers and over 80 per cent of BigBasket's fruit and vegetables sales are directly procured from them. It runs a programme called Farmer Connect under which it collects the produce directly and the payment is sent to their bank accounts. "If a farmer in our network decides to

sell his produce to somebody, he should tell them I love working with BigBasket and I will first supply them. That is what we want to achieve," says Menon.

Menon also believes that a customer is never wrong. He has put out his email ID in the public domain and several customers write to him directlv. The moment Menon gets home from office in the evening, he starts looking at customers' mails and begins addressing them directly or through

his customer service team.

An early riser who begins his day with morning walk and yoga, Menon is also pushing his company on the environment-friendly road. While its last-mile delivery fleet is turning electric, all its warehouses have gone solar. The company is also targeting to move the entire business to organic in the next 3-5 years. "Our goal is to see if we can supply traditional (organic) fruits and vegetables and staples at the same price without charging a premium," explains Menon.

Currently operating in 24 cities, BigBasket has put a hold on its expansion strategy. With grocery providing such huge scope, the company is betting on the idea of going deeper into each market instead of spreading and thinning out. "The moment you are spreading yourself thinner, you are not capturing each market completely," says Menon.

The online grocery business has been a slow starter in India but Covid-19induced tailwinds and participation from conglomerates are likely to accelerate growth. According to a Redseer report, from the overall 0.3 per cent, the segment could touch 2.3 per cent of the overall food and grocery market by 2024, which would make it a \$18 billion market growing at a CAGR of 57 per cent.

With the pandemic putting e-commerce at the forefront, BigBasket is seeing an 84 per cent increase in the number of new customers accompanied by 50 per cent higher retention rates over pre-Covid levels. Apart from immunity boosting categories such as fresh fruits, indulgence categories such as chocolates, cup noodles and savoury snacks registered 50 to 140 per cent growth over February.

Still, with marquee players such as Amazon, Walmart and Reliance making serious bets in the grocery space, and lack of visibility in terms of investments from large investors, experts point out the company will need serious money to stay in the game. If the start-up becomes part of the Tata group's investment basket, it may be well placed to take on the challenge.

BAG

B.A.G. Films and Media Limited CIN: L74899DL 1993PLC051841 Registered Office: 352, Aggarval Plaza, Plot No. 8, Kondli, New Delhi -110 096

Tel. No.: 91 120 4602424, Fax No.: 91 120 3911 401 Web: www.bagnetwork24.in E-mail: info@bagnetwork.in NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations an Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, November 10, 2020, at it Corporate office, to consider and approve inter-alia, the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and six month ended September 30, 2020.

The information is also available on th Company's website viz, www.bagnetwork24.ir and also available on the websites of Stoc Exchanges viz, <u>www.nseindia.com</u> an

For B.A.G. Films and Media Limite Rajeev Parasha

८₹ EICHER

Regd. Office: 3rd Floor-Select Citywalk strict Centre, Saket, New Delhi-11001 Corp. Office: #96, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana Telephone: +91 124 4415600

CIN: L34102DL1982PLC129877

Website: www.eichermotors.com NOTICE

Pursuant to Regulations 29 & 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, November 12, 2020, inter-alia, to consider and approve Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the second quarter and half year ended September 30,

The above intimation is also available on the

Company's website www.eichermotors.com

and also on the website of stock exchanges i.e. NSE-www.nseindia.com and BSE-For Eicher Motors Limited

General Counsel & Place : Gurugram, Haryana Company Secretary

Asian Hotels (East) Limited CIN No. L15122WB2007PLC162762 Regd. Office: Hyatt Regency Kolkata, JA-1, Sector-III, Salt Lake City Kolkata 700 098, W.B., India

Ph.: 033 68201344/1346, Fax: 033 2335 8246 Email ID: investorrelations@ahleast.com Website: www.ahleast.com NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of Asian Hotels (East) Limited will be held on Tuesday, 10th November, 2020 inter-alia, to consider & approve segment wise unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter (Q2) and half year ended 30th September, 2020 and Limited Review Repor

This information is also available on the website of the Company at www.ahleast.com and on the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at www.bseindia.com & www.nseindia.com

For Asian Hotels (East) Limited Saumen Chatterjee Place: Kolkata Chief Legal Officer 8

Date: 30th October, 2020

BAJAJ HEALTHCARE LIMITED 9 A/1,Rd No.23, Wagle Ind. Estate Tha ity Infotech Park, Plot No.B-39, B-West, Thane- 400 604 **CIN:** L99999MH1993PLC072892

Extracts of standalone unaudited financial results for the Quarter ended September 30, 2020

Sr.	Particulars		Quarter Ended	ł	Six Mon	Year Ended	
No.		30/09/2020 (Unaudited)	30/06/2020 (Unaudited)	30/09/2019 (Unaudited)	30/09/2020 (Unaudited)	30/09/2019 (Unaudited)	31/03/2020 (Audited)
1.	Total Income from Operations	20,663.47	13,983.32	10,054.58	34,646.79	19,223.96	41,000.84
 3. 4. 6. 7. 	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,825.64	2,043.46	453.62	4,869.10	915.21	3,606.02
	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,825.64	2,043.46	453.62	4,869.10	915.21	3,606.02
	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,011.67	1,529.16	323.75	3,540.83	647.71	2,523.67
	Total Comprehensive Income	2,011.67	1529.16	323.75	3,540.83	647.71	2,498.16
	Equity Share Capital	1,379.92	1,379.92	1379.92	1,379.92	1379.92	1,379.92
	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	16,405.88
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	Basic: (per shares Rs.) Diluted:(per shares Rs.)	14.58 14.58	11.08 11.08	2.35 2.35	25.66 25.66	4.69 4.69	18.29 18.29

The above results were reviewed by the Audit tive meeting held on October 29, 2020.

As the Company was listed in SME segment of BSE Ltd as on 31st March 2019 and migrated to Main Board on 29th May 2019. Ind-A is applicable from 1st April, 2020. Hence, the company has adopted Indian Accounting Standard ("Ind AS") as notified under Sectio 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 for first time from April 1, 2020. The above financial results have been prepared in accordance with principles as laid down in Ind AS-34 - Interir

The figures of the previous period have been regrouped whenever necessary.

Date: 29/10/2020 Place: Thane

FOR BAJAJ HEALTHCARE LIMITED **Company Secretary**



GOBIND SUGAR MILLS LIMITED Regd. Office: Birla Mill Complex, P. O. Birla Lines, G T Road,

Near Clock Tower, Kamla Nagar, North Delhi - 110007 Website: www.zuarisugar.com, email: ig.gsml@adventz.com Phone: +91-124-4827800, CIN: L15421DL1952PLC354222

Extract of Unudited Financial Results for the quarter ended 30th September, 2020

Quarter ended Year ended Quarter ended 30.09.2020 **PARTICULARS** 31.03.2020 30.09.2019 (Unaudited) (Audited) (Unaudited) 1 Total Income from Operations 19,534.69 62,017.90 12,472.77 2 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, (1,608.17)(3,506.34)(3,285.79)Exceptional and/or Extraordinary items) 3 Net Profit/(Loss) for the period before Tax (1608.17)(after Exceptional and/or Extraordinary items) (3,506.34)(3,285.79)4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (1,162.28)(7,456.06)(2,202.73)5 Total Comprehensive Income for the period [(Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] (1,153.01)(7,418.98)(2,195.36)6 Equity Share Capital 447.30 447.30 447.30

(25.98)

(25.98)

Notes:

2. Diluted

7 Reserves (excluding Revaluation Reserves)

(for continuing and discontinued operations):

8 Earning Per Share (of Rs. 10/- each)

- The above is an extract of the detailed format of quarter ended Financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format of the said Results are available on website of Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. (www.msei.in) and on the Company's website (www.zuarisugar.com)
- 2. Previous periods figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary.

For and on behalf of the Board **Gobind Sugar Mills Limited**

(9,811.73)

(166.69)

(166.69)

(49.08)

(49.08)

R S Raghavan

Place: Gurugram Date: 29th October, 2020

Once new films come out, it'll be business as usual: PVR CEO

It is 15 days since cinema halls reopened. Not every state, however, has given them permission to resume business. So, PVR Cinemas, a leading multiplex operator with 845 screens across 71 cities, is currently operating only 450 screens in 10 states and four Union Territories. While the number of screens might be nearly half, the first few weeks have been encouraging,

GAUTAM DUTTA, CEO of PVR Cinemas, tells Veenu Sandhu. Edited excerpts.

In the two weeks since cinemas reopened, what has been the experience of the multiplex industry - in terms of audiences

returning and the screening content? We are quite pleased by the response. It is heartening to see people rejoice at the feeling of watching movies on the big screen again. At this point, our aim is to honour the trust our customers have shown by choosing to return to the cinemas by offering industry-defining safety and hygiene.

In terms of the numbers, some states have shown exemplary response, with West Bengal booking full house with 50 per cent capacity — the maximum that is allowed right now.

We are currently screening content that has performed well in the past as part of our film festivals such as "Unmissable "Halloween Film Festivals", et cetera. We reopened with Bollywood blockbusters like Tanhaji, Thappad, Shubh Mangal Zyada Saavdhan, moved to

Hollywood award-winning hits like Parasite, Joker, Ford v Ferrari and are currently excited about horror favourites like Conjuring 2. It and the newly released The Rental. A large variety of regional content has also been made available to the public.

We are working on bringing new content and offerings such as "PVR Private Screening" to enjoy movies exclusively with one's friends and family. The whole theatre can be booked privately with the assurance of enhanced safety, starting at ₹1,999 We have also launched festive discounts and attractions.

What kind of confidence-building steps have been taken?

We are strictly adhering to the safety guidelines laid down by the home ministry in



standards prescribed by the Global Cinema Federation. The footfalls will increase once our **GAUTAM DUTTA**

$What is the {\it response} of the audience and$

Not every state has allowed cinemas to open. What has been the effect of that?

addition to our practices aligned with the

audience is satisfied with the safety practices, and we hope they will spread the word and build trust on our behalf.

The industry is pleased by the faith the government has shown in us by allowing 50 per cent occupancy. Our immediate and primary objective is to ensure the safety and well-being of our patrons and employees in every way and to build confidence in them to return to the theatres, and only then focus on measuring their response.

The response to reopening cinemas has

been different in every state owing to varied sentiments prevailing in the particular state. It is undoubtedly very important for cinemas across the country to open up so that the producers can start planning the release of new films. Maharashtra, in par-

of new Hindi films. What are the challenges that you're currently facing? Primarily to ensure the safety and wellbeing of our patrons and employees. To

ticular, is a very important state and con-

tributes approximately 20 per cent of the

Hindi films' revenue; therefore, reopening

of cinemas in the state is vital for the release

accomplish this, we are taking stringent measures: chequered auditorium seating; social distancing at all levels; digital contactless transactions: fibre and glass shields. The premise undergoes a complete ULV (ultra-low volume) sanitisation process at regular intervals and a deep cleaning and disinfection regime is followed every night using medical-grade disinfectant chemicals, apart from the cleaning and sanitisation after every show.

The next challenge is the release of new content. We are certain that once new films start coming out, it should be business as usual.

What support do you expect from the government?

We have made several requests to local governments to support the industry, including waiving of licence fee for the year, concessions in electricity and demand charges, waiver of GST dues for the next few months, loans and grants to give liquidity support to the sector, et cetera. We would also need support from both central and state governments to relax the capacity restrictions over the next few months.

$Cinemas\,were\,among\,the\,last\,businesses$ to get a green signal to operate and, expectedly, this had a financial impact on the industry. What's the picture like now? We are not just hopeful but are quite posi-

tive that the situation will improve in the coming months. The festival season, too, should significantly contribute to this. It is very dynamic right now, and it may

take 3-4 weeks for the confidence to start building up and for the new content to start coming in. However, it can be both sooner or later than that.

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमनों, 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के प्रावधानों के अनुपालन के तहत एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 30 सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए एकल एवं समेकित आधार पर कंपनी के अनांकेक्षित वित्तीय परिणामों के साथ अन्य विषयों पर विचार एवं उसे अंगीकृत करने के लिए वीडियो काँफ्रेंसिंग के जिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 6 नवम्बर, 2020 को

विस्तृत सूचना कंपनी की वेबसाइट (<u>https://hclinfosystems.in/investors/</u>) तथा स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाइट (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है। कते एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड

विपुल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नंबर 201, सी -50, मालवीय नगर, नई दिल्ली -110017

कॉर्पोरेट कार्यालयः विपल टैकस्क्वायर, गोल्फ कोर्स रोड.

CIN No.: L65923DL2002PLC167607

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ)

नियमावली, 2015 के नियम 29 के अनुपालन में हम आपको सहर्ष सूचित करते है कि

कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक ऑडियो विजअल माध्यम से. 30 सितम्बर, 2020 के

समाप्त अर्द्धवार्षिक के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और

अनुमोदन करने एवं अन्य विषयों एवं प्रासंगिक मामले हेतु **सोमवार, ०९ नवम्बर, २०२०**

इसके अतिरिक्त, इनसाइडर ट्रेडिंग से बचने के लिए कंपनी के नियमन, निगरानी और

रिपोर्टिंग ट्रेडिंग के लिए कंपनी की आचार संहिता के अनुसार, ट्रेडिंग विंडो अपने नामित

व्यक्तियों और उनके निकट संबंधियों द्वारा कंपनी की प्रतिभूति में व्यापार करने के

उद्देश्य से निदेशक मंडल की बैठक के समापन के बाद 48 घंटे अर्थात 1 अक्टूबर

2020 से कंपनी की प्रतिभृतियों में लेनदेन के लिए बंद चल रही है।

को आयोजित की जायेगी (एकल और समेकित)।

दिनांकः ३० अक्टबर २०२०

थानः गरूग्राम

फोन न. : 0124—4065500, वेबसाईट : www.vipulgroup.in

म्थानः नोएडा दिनांक: 30 अक्टूबर, 2020

Y

Vipul

हस्ता/-सुशील कुमार जैन कंपनी सचिव सदस्यता सं. : ए891

दिनांक : 30 अक्टूबर, 2020 . कम्पनी सचिव . अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को अनमोदित करने हेत निदेशक मंडल की बैठक को ध्यान में रखते हए

के 30 सितम्बर, 2020 तक एवं के लिए समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर

मनोनीत व्यक्तियों के लिए ट्रेडिंग विन्डों दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 से 8 नवम्बर, 2020 तक बन्द कर र्द जक्त जानकारी के लिए शेयरधारक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया की वेबसाईट (www.nseindia.com), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइंट (www.bseindia.com) तथा हमारी वेबसाइंट (www.bhel.com) का इन्वेस्टर रिलेशंस पेज देखे |

सूचना

लिमिटेड लायब्लिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) तथा लिमिटेड लॉयब्लिटी पार्टनरशिप नियमों, 2009 के नियम 17 के मामले में लिमिटेड लायब्लिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 धारा 13(3) के मामले में

तथा सरला प्रमोटर्स एलएलपी पंजीकृत कार्यालय ए1/3, भूतल, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 कੇ ਸ਼ਾਸਕੇ ਸੇ

. याचिकाकर्त्ता

के लिए तथा उनकी ओर से

🗝 🥯 टालब्रोस ऑटोमोटिव

सीआईएन: L29199HR1956PLC033107 पंजीकृत कार्यालय: 14/1, दिल्ली मथुरा रोड,

फरीदाबाद - 121003 (हरियाणा)

वेबसाइट: www.talbros.cor

ई-मेल: seema_narang@talbros.com, फोन नं: 0129-2251482

नोटिस

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं<u>)</u>

विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में एतदुद्वार ्रिचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की

बैठक सोमवार, 9 नवम्बर, 2020 को आयोजित की

जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ३० सितम्बर

आर्पा जिसमें अन्य बाता के साथ-साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए कम्पनी के अलेखापुरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन एवं

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.talbros.com

और म्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात बीएस

लिमिटेड www.bseindia.com एवं वि वेत्राह्म स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

BAG

बी.ए.जी.फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड CIN: L74899D.1993PLC051841 ਪੰजੀ.कार्योक्त : 352, अग्रवाक्त प्लाजा, प्लाट नं. 8 कोंडली, ਜਾई दिल्ली—110096 ਟੇਲੀ: 91—120 460 2424, फैਕਸ ਜੰ. 0120—3911401 वेबसाइट :www.bagnetwork24.in ਉੱਸੋल : info@bagnetwork1

भारतीय प्रतिभति व विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध

देयताएं व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के

विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के

अनुपालन में एतददारा सचित किया जाता

30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही व छमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय

परिणामों पर विचार करने के साथ–साथ

अनुमोदन के लिए मंगलवार, 10 नवंबर, 2020 को इसके निगमित कार्यालय में

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.bag

network24.in और स्टॉक एक्सचेंज की

वेबसाइटों www.nseindia.com और

www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

निगमित कार्या. एफसी-23, सेक्टर-16ए, फिल्म सिटी, नोएड़ा(उप्र)-201301

मवाना सुगर्स लिमिटेड (CIN: L74100DL1961PLC003413)

19, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110125

दूरभाष नं.: 011-25739103. फैक्स नं

011-25743659

ई-मेलः corporate@mawanasugars.con

बेवसाइटः www.mawanasugars.com

सूचना

सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताः

बी.ए.जी.फिल्म्स एंड मीडिया लि. के लिए

राजीव पराशर.

आयोजित की जाएगी।

दिनांक :30.10.2020

स्थान : नोएडा

कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक

कृते टालब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोनेंटस लिमिटेड

सीमा नारंग कंपनी सचिव

www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

रिकार्ड में लिया जाएगा।

दिनांक : 30/10/2020

कम्पोनेंट्स लिमिटेड

हस्ता/-

अमित अग्रवाल

(मनोनित साझेदार)

कृते भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

हस्ताक्षर / –

(राजीव कालडा)

एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एलएलपी द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने की अनुमति प्राप्त करने हेत् लिमिटेड लायब्लिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के अधीन कंपनियों के पंजीयक, दिल्ली के एनसीटी एवं हरियाणा के समक्ष

कोई भी व्यक्ति जिनका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित बदलाव से प्रभावित हो सकता है, ऐसे व्यक्ति अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 (इक्कीस) दिनों के अंदर पंजीकृत डाक द्वारा कंपनियों के पंजीयक, दिल्ली के एनसीटी तथा हरियाणा के कार्यालय में दर्ज कर सकते हैं तथा साथ में हित की प्रकृति एवं विरोध के कारण, यदि कोई है, का उल्लेख करें एवं उसे हलफनामा द्वारा समर्थित कर भेजें। उसकी एक प्रति याचिकाकर्त्ता एलएलपी के ऊपर उल्लेखित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजें: सरला प्रमोटर्स एलएलपी

मकान नं. 1052, सेक्टर-40, ग्रुग्राम

शाखा : हल्द्वानी (ई-इलाहाबाद बैंक)

दिनांक: 30.10.2020

Indian Bank

के लिए और बोर्ड की ओर से

विपुल लिमिटेड

हस्ता. /

सुनील कुमार

कंपनी सचिव

इंडियन बैंक इलाहाबाद (A Govt. Of India Undertaking) ALLAHABAD

> अनुलग्नक-क परिशिष्ट-IV-A-(अधिनियम 8(6) के प्रावधान देखें)

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतू विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई—नीलामी बिक्री सूचना एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास

बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक/रचनात्मक/सांकेतिक (जो भी प्रयोज्य हो) कब्जा इण्डियन बैंक (ई—इलाहाबाद बैंक), हल्द्वानी शाखा, प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया था, की बिक्री रेनू जोशी पत्नी गिरीश जोशी (कर्जदार), निवासी 77-78, अमरावती कॉलोनी, मल्ली बामोरी, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल, पिन-263139 से इण्डियन बैंक (ई-इलाहाबाद बैंक), हल्द्वानी शाखा, प्रतिभूत क्रेडिटर के 29.06.2019 तक बकाये रु. 81,53,420.00 (रुपये इक्यासी लाख तिरेपन हजार चार सौ बीस मात्र) की वसूली के लिए 25.11.2020 को ''जो है यही है'',''जहाँ है जैसे है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जायेगी।

ई—नीलामी के माध्यम से पुनरू बिक्री के इरादे से रखी सम्पत्ति का विशेष विवरण नीचे दिया गया है :

अचल सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति 1. सम्पत्ति का क्षेत्रफल माप 0.090 हेक्टेयर, रेनू जोशी के नाम पर, खाता सं. 13, बसरा नं. –32 तथा खेत सं. 1015,1016,1017,1018, 1019 मिन. मौजा–गंधक, पटवारी खस्त्रा, कोटुली, तहसील–भनोली, जिला अल्मोड़ा (विक्रय विलेख दिनांक 18.04.2016) सीमाएं निम्नलिखित हैं : पूर्व: रौली, पश्चिम: रौली, उत्तर: पैमाईश नं. 1001, दक्षिण: रौली।			
सम्पत्ति पर ऋण भार	इलाहाबाद बैंक अब इंडियन बैंक का साम्यिक बंधक			
जमानती/बंधककर्ता (ओं) के नाम :	जमानती : 1. गिरीश जोशी पुत्र स्व. एल.डी. जोशी (जमानती), नि. 77–78 अमरावती कॉलोनी, मल्ली बमोरी, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, पिन — 263139 जमानती : 2. दान सिंह पुत्र हरक सिंह (जमानती), नि. ग्राम बसानी, पोस्ट बैल, हल्द्वानी, जिला नैनीताल बंधककर्ता : रेनू जोशी पत्नी गिरीश जोशी, नि. 77–78, अमरावती कॉलोनी, मल्ली बमोरी, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, पिन — 263139			
आरक्षित मूल्य	₹5. 23,30,000/-			
बयाना राशि	₹5. 2,33,000/-			
संविदा वृद्धि राशि	₹. 10,000/-			
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	25.11.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप.			
और अधिक जानकारी एवं नियम एवं शर्तों के लिए सम्पर्क :	श्री अनिल कुमार फोन नं. : 05946-220960 मोबाईल :9456641483 ई–मेल : <u>h517@indianbank.co.in</u>			
संविदाकारों को ऑनलाइन संविदा में भाग लेने के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट				

www.mstcecommerce.com देखने का परामर्श दिया जाता है। तकनीकी सहायता के लिए कृपया एमएसटीसी के हेल्पडेस्क नं. 033–22901004 तथा सेवा प्रदाता के हेल्प डेस्क में उपलब्ध अन्य हेल्पलाइन नम्बरों पर सम्पर्क करें। एमएसटीसी लिमिटेड के साथ पंजीकरण की स्थिति के लिए कृपया ibapifin@mstcecommerce.com पर तथा ईएमडी स्थिति के लिए कृपया

ibapifin@mstcecommerce.com पर सम्पर्क करें। सम्पत्ति के विवरण तथा सम्पत्ति के फोटोग्राफ एवं नीलामी के नियम एवं शर्तों के लिए कृपया https://ibapi.in तथा इस पोर्टल से सम्बन्धित स्पष्टीकरण के लिए कृपया हेल्प लाइन नम्बर ''18001025026'' तथा ै''11–41106131'' पर सम्पर्क करें। वेबसाइट <u>https://ibapi.in</u> तथा <u>www.mstcecommerce.com</u> में सम्पत्ति की खोज करते समय संविदाकारों को उपर्युक्त सम्पत्ति आईडी संख्या का उपयोग करने का परामर्श दिया जाता है।

दिनांक : 29.10.2020 स्थान : हल्द्वानी

प्राधिकृत अधिकारी

पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएनः L74899DL1989PLC036849

पंजीकृत कार्यालयः ए-3, कम्युनिटी सेन्टर, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110028

कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट न. 51, सेक्टर-32, गुरूग्राम-122001 (हरियाणा) Pearl Global टेलीः 0124–4651000; ई-मेलः investor.pgil@pearlglobal.com; वेबसाइटः www.pearlglobal.com

31वीं वार्षिक आम बैठक की सचना तथा ई-वोटिंग की जानकारी

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि

1. कम्पनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन बुहस्पतिवार, 26 नवम्बर, 2020 को, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांकित 5 मई, 2020 के साथ पठित परिपत्र दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल,

2020 (सामूहिक तौर पर "एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) के शर्तानुरूप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से, एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों के सम्पादन हेतु किया एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र दिनांकित 12 मई, 2020 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट के

को ई-मेल किया जा चुका है जिनका ई-मेल पता कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है। इन दस्तावेजों को कम्पनी की वेबसाइट www.pearlglobal.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> एवं <u>www.nseindia.com</u> क्रमशः तथा लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.linkintime.co.in</u> से भी डाउनलोड किया जा सकता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन), नियम 2014 के नियम 20, यथा समय यथा संशोधित, एवं भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015

साथ एजीएम की सूचना, अन्य विषयों के अतिरिक्त, ई-वोटिंग हेतु निर्देशों सहित 30 अक्टूबर, 2020 को उन सदस्यों

के विनियमन 44, तथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट किसी भी या सभी व्यवसाय पर एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग का उपयोग

करके वोट करने के उनके अधिकार का उपयोग करने हेतु ई-वोटिंग की सुविधा, उन सदस्यों को प्रदान की जा रही है जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 19 नवम्बर, 2020 के अनुसार उपस्थित हो। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा तथा एजीएम में ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना के नोट संख्या 20 तथा 21 क्रमशः में उल्लिखित हैं।

ई-वोटिंग आरम्भ तथा समाप्त होने की तिथि एवं समयः

ः सोमवार, 23 नवम्बर, 2020 (प्रातः 09.00 बजे)

ः बुधवार, 25 नवम्बर, 2020 (सायं 05.00 बजे)

ई—वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग हेतु बुधवार, 25 नवंबर, 2020 को सायं 5.00 बजे के उपरान्त निष्क्रिय कर दिया जाएगा, एक बार सदस्य द्वारा वोट दिए जाने के पश्चात् उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला हो, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु पुनः अपना वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे, वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला हो और वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हों, वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात शेयरों का अधिग्रहण किया हो तथा कम्पनी के सदस्य बने हो एवं कट-ऑफ तिथि अर्थात बहस्पितवार, 19 नवम्बर, 2020 को शेयरों को प्रतिरक्षित रखते हों. वे एजीएम की सचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन करके अपने वोट डाल सकते हैं।

प्रश्नों के मामले में, सदस्य https://instavote.linkintime.co.in के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए 'फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चनस' (FAQs) एवं ई–वोटिंग युजर मैन्युअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर: 022-4918 6000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा enotices@linkintime.co.in पर एक अनुरोध भेजें। ई-वोटिंग की सुविधा से सम्बंधित किसी भी शिकायत के मामले में, श्री राजीव रंजन, सहायक वाईस-प्रेसिडेंट, लिंक इन्टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से enotices@linkintime.co.in, 022-4918 6000 पर संपर्क कर सकते है अथवा कम्पनी सचिव को investor.pgil@pearlglobal.com पर लिख सकते हैं।

कृते पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता. / -संदीप सभरवाल (कम्पनी सचिव)

given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, November 12, 2020, inter-alia, to consider and approve Unaudited Standalone & Consolidated Financia Results of the Company for the second quarter and half year ended September 30 2020. The above intimation is also available on the

and also on the website of stock exchange ww.bseindia.com

विज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 31 अक्टूबर 2020 शनिवार

Kamber

AMBER ENTERPRISES INDIA LIMITED

Registered Office: C-1, Phase – II, Focal Point, Rajpura Town – 140 401, Punjab Corporate Office: Universal Trade Tower, 1st Floor, Sector - 49, Sohna Road, Gurugram – 122 018, Haryana E-mail: info@ambergroupindia.com; Website: www.ambergroupindia.com Tel: +91 124 3923000; Fax: +91 124 3923016, 17; CIN: L28910PB1990PLC010265

Notice

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 7 November 2020 to consider and approve inter alia:

the unaudited financial statements (standalone and consolidated) of the Company for the quarter and half year ended 30 September 2020;

Further, in accordance to the Regulation 46 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the details of the aforesaid meeting are available on the website of the Company i.e. www.ambergroupindia.com and the website of the Stock Exchanges

For Amber Enterprises India Limited

Date: 30 October 2020 **Company Secretary and Compliance Officer**

RELIGARE I HOME

केन्द्रीय कार्यालय : प्रथम तल, प्रायस ग्लोबल टॉवर, ए-3, 4, 5, सेक्टर-125, नोएडा-20

जैसा कि. अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की वित्तीय आस्तियों तथ प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के प्रावधानों के तहत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नेशनल हाउसिंग बैंक (पुर्ण रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व में) के साथ पंजीकृत हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी रेलीगेय हाँउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएचडीएफसीएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते श्री मोहम्मद तारिक पुत्र मोहम्मद शम्सी तथा शबनम जहान पत्नी मोहम्मद तारिक (कर्जदार एव सह-कर्जदार) दोनों निवासी : 104, जीएफ, गली नं. 18, मयूर विहार, निकट प्रताप नगर, दिल्ली-110091 को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु 8,10,895.23/- (18.03.2019 से उस पर ब्याज सहित) का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए 19.03.2020 को एक माँग सचना निर्गत की थी।

कर्जदार के राशि के पनर्भगतान में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सचन दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में 28 अक्टूबर, 2020 को नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार रु. 8,10,895.23/- तथा 18.03.2019 से उस पर ब्याज के लिए ''आरएचडीएफसीएल'' के अभियोग का विषय होगा :

कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है, यि कर्जदार बिक्री या अन्तरण के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं आये व्ययों सहित "आरएचडीएफसीएल" के बकाये का भुगतान कर देता है तो प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री या अन्तरण ''आरएचडीएफसीएल'' द्वारा नहीं किया जायेगा और प्रतिभृति आस्तियों के अन्तरण या बिक्री हेतु ''आरएचडीएफसीएल'' द्वारा कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जायेगी।

सम्पत्ति की अनसची प्लॉट सं. 56, फ्लैट सं. एफएफ 02, प्रथम तल, एलआईजी खसरा नं. 367, खुशल्लहार ग्राम

सादुल्लाबाद परगना, लोनी तहसील, जिला गाजियाबाद उ.प्र. का सम्पूर्ण भाग। स्थान : गाजियाबाद अधिकृत प्राधिकार्र

मैसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड तिथि : 28.10.2020

करोल बाग शाखा, 10203, ो वैक ऑफ़ बड़ौदा | POWER 📗 जमना हाऊस, पदम सिंह रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 Bank of Baroda OF f frants D dade

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [देखें नियम 8(1)] जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियाों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित

(अधिनियम), 2002 के प्रवर्तन के अधीन **बैंक आँफ बड़ौदा (भूतपूर्व विजाया बैंक**), का . गाधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के (नियम 3) के साथ ाठित घारा 13(12) के अधीन प्रदेत शक्तियों के अंतर्गत ऋण धारक **मेसर्स भोला नाथ ज़वेरी** ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड 2650–51, दूसरा तल, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, दिल्ली 1 10005 और गयारंटरो श्री सुशील कप्पोर पुत्र स्वर्गीय श्री भोला नाथ कप्पोर, कु. चारू कप्पोर पुत्री श्री सुशील कप्पोर, श्री धन्नजेय कप्पोर पुत्र श्री सुशील कप्पोर, श्रीमती वर्षा कप्पोर ात्नी श्री सुशील कप्पोर, सभी निवासी:33, गगन विहार, परवाना रोड़, नई दिल्ली को मांग सूचना दिनांक 21.08.2020 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. ें,25,96,995.18 (रुपये सात करोड़ पच्चीस लाख छियानेंवे हजार नौ सौ पंचानवे और **अठारह पैसे मात्र) दिनांक ३१.०७.२०२०** तक संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, लागत, प्रभार और खर्चें पूर्ण चुकौती की दिनांक तक उक्त सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के अंदर मगतान करने को कहाँ गया था।

ऋणधारकों/गयारंटरों द्वारा राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हुए हैं, इसलिए एतद्द्वार ऋणधारकों / गयारंटरों तथा सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताकर्ता / अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ की धारा 13 की उपधारा (4) के नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **28 अक्टूबर 2020** को लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारकों /गयारंटरों तथा सर्व सामान्य को एतदद्वारा उक्त सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ** बडौदा. (भृतपूर्व विजाया बैंक) के प्रभार वास्ते रु. 7.25.96.995.18 (रुपये सात करोड पच्चीस लाख छियानवे हजार नौ सौ पंचानवे और अठारह पैसे मात्र) दिनांक ३ १.०७.२०२० नक संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, लागत, प्रभार और खर्चें पूर्ण चुकौती की दिनांक तक के

[ऋणधारकों /गयारंटरों /बंधकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 3 की उप धारा (8) के पावधानों के अंतर्गत प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।**1**

अचल/चल सम्पत्तियों का विवरण

श्रीमती वर्षा कप्पोर (गयारंटर) पत्नी श्री सुशील कप्पोर के नाम समान रूप से बंधक व्यवसायिक सम्पत्ति रिश्यत पहला तल और दूसरा तल और छत अधिकार सहित 2650—51 और 2657 वार्ड नं. XVI, पर निर्मित प्लाट/खसरा नं. 235 और 237, ब्लाक–एल, गली नं. 3 बैंक स्ट्रीट, नाईवाला स्टेट, बेदुनपुरा, करोल बाग, नई

दक्षिण-पश्चिम : रोड (बैंक स्टीट)

उत्तर-पश्चिम: श्रीनाथ की दुकान

उत्तर–पूर्व : उक्त सम्पत्ति का हिस्सा

दिल्ली—110005 . पर प्रत्येक तल में माप 15—6* 25—9 का सम्पूर्ण और सर्वांगीण भाग। सीमांकन

दक्षिण-पूर्व : अन्य सम्पत्ति

दिनांक 28.10.2020

स्थान : नई दिल्ली

वेनियमन, 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के प्रावधानों के अनुपालन के तहत तद्द्वारा सूचित किया जाता है दिनांव 30 09 2020 को समाप्त तिमारी एवं फ्रमारी के अनांकेक्षित वित्तीय परिणामों (एकल एवं समेकित को अंगीकत करने के लिए कंपनी के निदेशव मंडल की बैठक बुधवार, 11 नवम्बर, 2020 क आयोजित होगी। इस सचना में सम्मिलित जानकारी कंपनी कीवेबसाइ

www.mawanasugars.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.bseindia.con तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है बोर्ड के आदेशानसा कते मवाना सगर्स लिमिटेड

(अशोक कुमार शुक्ला) थान : नई दिल्ली तारीख: 30.10.2020

एसीएस-29673

∠ EICHER **EICHER MOTORS LIMITED**

CIN: L34102DL1982PLC129877 Regd. Office: 3rd Floor-Select Citywall A-3 District Centre, Saket, New Delhi-110017 Corp. Office: #96. Sector 32. Gurugram-122001, Haryana

Telephone: +91 124 4415600

Website: www.eichermotors.com **NOTICE**

Pursuant to Regulations 29 & 47 of the SEB (LODR) Regulations, 2015, notice is hereby

Company's website www.eichermotors.com i.e. NSE-www.nseindia.com and BSE

> For Eicher Motors Limite Manhar Kapoo

Place :- Gurugram

Dated :- 30th October, 2020

Date: 30.10.2020 General Counsel 8 Place: Gurugram, Haryana Company Secretar सूचना

चम्बल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड

पंजीकत कार्यालयः गाडेपन, कोटा, राजस्थान-325208 रतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के नीचे उल्लेखित प्रतिभूतियों हेतु प्रमाणपत्र गुम हो . चुके/खो गए हैं/गायब हो चुके हैं। इस संबंध में कंपनी को सूचना दी गई है तथा मैंने/हमने -डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्रों के लिए कंपनी के समक्ष आवेदन दाखिल किया है।

15 दिनों के अंदर अपना दावा कंपनी के पास उसके पंजीकृत कार्यालय में दर्ज करें, अन्यथा कंपनी बिना कोई दोबारा सूचना प्रदान किए डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया आरम्भ

कोई भी व्यक्ति जिनके पास संबंधित प्रतिभृतियों के संबंध में कोई दावा हो तो वे इस तारीख से

स्थानः गाडेपन तारीखः 30.10.2020 अकुला नागा वेंकटा				
सुब्बाराव	रु. 10/-		173842	से 506
वेंकटा	मूल मूल्य		एवं	406 तथा 407
अकुला नागा	इक्विटी शेयर	200	173841	45288307 से
का नाम	एवं मूल मूल्य	की संख्या	नम्बर	संख्या
धारक	प्रतिभूति का प्रकार	प्रतिभूतियो	सर्टिफिकेट	विशिष्ट

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank सेक्टर–44 नोएडा शाखा, ओमेगा ग्रीन, 513, सी ब्लॉक, सेक्टर–44, नोएडा (उ.प्र.)–201301

कब्जे का नोटिस (अचल संपत्ति के लिए) {नियम 8 (1 देखें)}

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी द्वारा **युनियन बैंक ऑफ इंडिया** का अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवम पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हिंत प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) और अधिनियम की धारा 13(12) के अंत्गत उसके सहप्रित प्रतिभूति हित (2002 का 54) और अधिनेयम की धाराँ 13(12) के अंतंगत उसके सहपठित प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के अंतंगत प्रवर्त शिक्यों का प्रयोग करते हुए दिनाक 10.09. 2016 को हिमाइं नोटिस जारी कर कर्जदारों – श्री महेश कृमार नागर सुपुत्र श्री राजा राम नागर अर्थ हिमाइं नोटिस जारी कर कर्जदारों – श्री महेश कृमार नागर सुपुत्र श्री राजा राम नागर और श्रीमती गीता रानी पत्नी श्री महेश कृमार नागर, दोनों का पताः ए-92, विजय नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.) – 201009 और अन्य पताः उत्तरी रेलवे, दिल्ली प्रमाग विश्व प्रमागीय इत्वेक्ट्र कला अभियंता, ई.एम.यू. कार शेंड, गजियाबाद (उ.प्र.) – 201009 को नोटिस में उल्लिखित दिनांक 10.02.2016 तक उस पर आगे के ब्याज, लागतों और अन्य आकिस्मक खर्चों आदि सहित रु 52,46,783.80 (केवल बावन लाख छियालीस हजार सात यौ तिरासी रूपये और अस्सी पैसे) का मुगतान कथित नोटिस प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर करने की मांग की गई है। कर्जदार देय राशि का मुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिये एतदद्वारा कर्जदारों और विशेष रूप से आम जनता को नोटिस दिया जाता है, कि अधोहराबारी ने कथित अधिनेयम की धारा 13 की ज्या-कारण (४) के महापतित प्रतिमति हित प्रवर्तन नियमावती, 2002 के नियम 8 के अंतरात

रूप ते जान जानी को नाहिस्त पूर्व जाता है, कि अविस्तात में कीवर तावानियम जो वार्त 13 की उप—धारा (4) के सहस्वित प्रतिमृति हिंत प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत ज उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 27 **अक्टूबर 2020** को कब्जा प्राप्त कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारो और आम जनता को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे कथित ावश्य रूप से कर्णवारा आर आने जुनता का एतिवृद्धार सावधान किया गया जिता है कि व कीयत संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन मत करें और उनके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का लेनदेन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर — 44, नोएडा शाखा, ओमेगा ग्रीन, 513, सी ब्लॉक, सेक्टर — 44, नोएडा (इ.प्र.)—201301 पुर दिनांक 10.02.2016 तक उस पर आगे के ब्याज, लागतां और अन्य आकस्मिक खर्चों आदि सहित रु 52,46,783.80 (केवल बावन लाख छियालीस हजार सात सौ तिरासी रूपये और अस्सी पैसे) के प्रमार के अधीन

विशेष रूप से कर्जदारों और आम जनता का ध्यान, आरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिये . उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित अचल संपत्ति/चल संपत्ति के विवरण

ए–92, विजय नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.) – 201009 में स्थित समानरूप से बंधक रखी संपत्ति का सारा हिस्सा और उसमें सब कुछ शामिल है। इसकी चौहदी – पूर्वः पश्चिमः उत्तरः दक्षिणः से घिरी है। दिनांक: 27 10 2020 पाधिकत अधिकारी

यनियन बैंक ऑफ इंडिया

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS 1. Name of the corporate debtor M/s Shree Basant Oils Limited Date of incorporation of corporate 21st September, 1990 debtor Authority under which corporate ROC-Kanpur debtor is incorporated / registered Corporate identity number / limited liability identification number of U15141UP1990PLC012313 corporate debtor Address of the registered office #4/49, Philip Ganj, Agra to Mathura at and principal office (if any) of F-5, Site B, Industrial Area, Mathura corporate debtor UP 281002 nsolvency commencement date 16th January 2020 of the corporate debtor Date of invitation of expression 31st October 2020 Eligibility for resolution applicants https://shreebasantoilslimited.wordpress.co. Resolution applicant can be sought by mailing s available at: at : caaditya65@gmail.com he detailed EOI & EOI Form available at https://shreebasantoilslimited.wordpress. Norms of ineligibility applicable In Eligibility criteria for the prospective

under section 29A are available at Resolution applicant can be sought by mailing at : caaditya65@gmail.com Lastdateforreceipt of expression 15th November 2020 of interest Date of issue of provisional list of 25th November 2020

Last date for submission of 30th November 2020 objections to provisional list Date of issue of final list of 10th December 2020 prospective resolution applicants Date of issue of information nemorandum, evaluation matrix 30th November 2020 and request for resolution plans to prospective resolution applicant Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information.

rther information egulations made thereunde Last date for submission o 30th December 2020 resolution plans Manner will be specified in Request For Resolution Plan (RFRP) plans to resolution professional

resolution plan to the Adjudicating 29th January 2021 Authority for approval Mr. Aditya Agarwal, Reg no. Name and registration number of IBBI/IPA-001/IP-P00529/2017-18/10954 the resolution professional Aditya Agrawal, # 3A/105, Azad Nagar, Kanpur 208 002. Name, Address and e-email of the

23. Date of publication of Form G

resolution professional, as registere with the Board e-mail:caaditya65@gmail.com Address and email to be used for Aditya Agrawal # 3A/105, Azad Nagar, Kanpur 208 002. e-mail:caaditya65@gmail.com Further Details are available at Aditya Agrawal, e-mail:caaditya65@gmail.com

Resolution Professional of Date : 30th October 2020 M/s Shree Basant Oils Limited IBBI/IPA-001/IP-P00529/2017-18/10954 Place: Kanpu

31st October 2020

Aditya Agrawal

JBM D

प्राधिकृत अधिकारी

(भूतपूर्व विजाया बैंक)

. बैंक ऑफ बड़ोदा

JAY BHARAT MARUTI LIMITED Read. Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi-110019.

Ph.: 011-26427104; **Fax**: 011-26427100; Website: www.jbmgroup.com CIN: L29130DL1987PLC027342

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2020 (Rs. in Lacs STANDALONE CONSOLIDATED

SI. No.	Particulars	Quarter Ended 30/09/2020	Half Year Ended 30/09/2020	Quarter Ended 30/09/2019	Quarter Ended 30/09/2020	Half Year Ended 30/09/2020	Quarter Ended 30/09/2019	
1.	Total Income from operations	39,255.61	46,332.83	41,111.43	39,255.61	46,332.83	41,111.43	
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,410.26	(1,744.56)	527.24	1,428.97	(1,783.93)	577.97	
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,410.26	(1,744.56)	527.24	1,428.97	(1,783.93)	577.97	
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	905.33	(1,155.71)	337.55	919.27	(1,185.17)	376.42	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	1,000.95	(855.15)	329.47	1,014.89	(884.61)	368.34	
6.	Equity share capital	1,082.50	1,082.50	1,082.50	1,082.50	1,082.50	1,082.50	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	41,225.34	41,225.34	39,323.40	41,233.98	41,233.98	39,311.33	
8.	Earning per Share (of Rs. 5/- each) (not annualised) (For continuing and discontinued operations)-				·			
	a) Basic	4.18	(5.34)	1.56	4.25	(5.47)	1.74	
	b) Diluted	4.18	(5.34)	1.56	4.25	(5.47)	1.74	

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and othe Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) www.nseindia.com and www.bseindia.com, and on the Company's website www.jbmgroup.com By Order of the Boar FOR JAY BHARAT MARUTI LIMITED

S. K. ARYA **CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR**

स्थान : गुरूग्राम दिनांक : 30 अक्टूबर 2020

CIN: L72200DL1986PLC023955 सूचना

सेबी (लिस्टिंग दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 47 के अनुपालनार्थ एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक, शुक्रवार, दिनांक 6 नवम्बर, 2020 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य मुद्दों के साथ–साथ कंपनी

विचार एवं अनुमोदित किया जाएगा।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड **Bharat Heavy Electricals Limited** सीआईएन: L74899DL1964GOI004281, फोन: 011-66337000, फैक्स: 011-66337428 वेबसाईट: www.bhel.com, ईमेल: shareholderquery@bhel.in

Any other matter brought before the Board, with the kind consent of the chair

where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com)

Place: Gurugram Konica Yaday

फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

कब्जा सुचना [परिशिष्ट IV नियम 8(1)]